

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219 ]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 जून 2019 — ज्येष्ठ 22, शक 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 11 जून 2019

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-5/2019/17-दो. — औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व की अधिसूचना क्र. एफ 25-9/2012/नौ/17-2 (दो), दिनांक 27 जनवरी, 2017 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, डॉ. विनोद कुमार वर्मा, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 को अनुसूची-सी एवं सी (1) में विनिर्दिष्ट औषधियों सहित छत्तीसगढ़ राज्य में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के प्रयोजन के लिए शासकीय विस्लेषक नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 जून 2019

क्रमांक एफ 1-5/2019/17-दो. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11-6-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 11th June 2019

NOTIFICATION

No. F 1-9/2019/17-Two.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) and in supersession of previous Notification No. F 25-9/2012/9/17-2 (II), dated 27th January, 2017, the State Government, hereby, appoints Dr. Vinod Kumar Verma, Junior Scientific Assistant, Drugs Testing Laboratory, Kalibadi, Raipur as Government Analyst for the purposes of Drugs and Cosmetics in the State of Chhattisgarh including drugs specified in Schedule C and C(1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
NIHARIKA BARIK SINGH, Secretary.